

Date: 05.06.2021

To

The Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze, Jeejeebhoy Towers
Dalal Streets
Mumbai – 400001

Subject: Quarterly Compliance for quarter ended on 31.03.2021 (BSE Scrip Code-539522)

Dear Sir/Madam,

In reference to captioned subject please find attached the newspaper cuttings of the Financial Results published in the following newspapers:

- 1. Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

Please take note of the same and do the needful.

For Grovy India Limited

Pooja Jain

Company Secretary & Compliance officer

New Delhi

Hemisphere Properties India Limited CIN: U70101DL2005GO1132162 te Address: Room No. 144, C-Wing, Nirmar Maulana Azad Road, New Delhi 110001

Sd/-Company Secretary & Compliance Officer

Company Secretary 4 Compliance Officer

first, register Busses, page 5855504 th MOTE Busses of the Secretary 1 and 1 an



NOTICE INVITING TEXDER

Online Open Tenders are invited under single stage. Two Bid system from experienced and financially sound eligible Contractors: Time: Companies as per Tender Nos. 2021. SNMC. 78668. 2021. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by HQ. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by Horticulum Deptt. (HQ) vide. No. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by HQ. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by HQ. 1862. SNMC. 78668.

2021. SNMC. 78668 issued by HQ. 1862. SNMC.

hemseves regional detailed terms & conditions can be common very beside in the detailed terms & conditions can be common very beside in the 2 very beside in

GROVY INDIA LIMITED
CIN:L74130DL1985PLC021532
e:122, 1st Floor, Vinobapuri, Lajpat Nagarligmail.com | Website: www.grovyindia.com

-1.00 125.88

11.50 131.65

www.grovyindia.com under Investors Desk.
The Above Audited Financial inseults and Segment Results have been reviewed and recommended by the Audi
Committee in their meeting held on 03.06.2021 and approved by the Board of Director at their meeting held on
X n.C. 20.31

Notice-cum-Addendum no. 17 of 2021

Notice-cum-Addendum no. 17 of 2021

Notice-cum-Addendum to the Statement of Additional Information (SAI) of IDFC Mutual Fund (the Fund)

Investors are requested to note that Ms. Anita Ramachandran has ceased to be Director on Board of the AMC with effect from June 3, 2021, consequent to her retirement. Accordingly, any reference pertaining to Ms. Anita Ramachandran under section 'Details of AMC Directors' in SAI shall stand deleted.

Prosects of DPC Struting Fulls in the story of the process of DPC Struting Full Interestors are requested to note that Dr. Jaimini Bhagwati, Independent Director on Board of IDFC AMC Trustee Company Limited has been has been re designated as Associate Director of IDFC AMC Trustee Company Limited with effect from May 25, 2021.

B. Change in composition of Board of Directors of IDFC AMC Trustee Company Limited
(Trustees to IDFC Mutual Fund)

All the other provisions of the SAI of the Fund except as specifically modified herein above, read with the addenda issued from time to time, remain unchanged.

This addendum forms an integral part of the SAI of the Fund, read with the addenda issued from

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Place: Mumbai Date: June 04, 2021

otal Income from Operations et Profit / (Loss) for the period (before Tax.

-151.34

143.96

169.34

5.73

IDFC

SEARCH ON

PESB finds no suitable candidate to head ONGC

GOVERNMENT

GOVERMENT MEADHUNTER PESB on Friday did
not find anyone suitable from
nine candidates, including two
serving IAS officers, to head
India's largest oil and gas producer ONGC.
The Public Enterprise Selection Board (PESB) interviewed
nine out of the 10 candidates
who had applied for the post of
chairman and mana aging director of 0il and Natural Casa Corporation (ONGC, "Keeping in
view the strategic importance
and vision for the company and
its future, the Board did not
recommend any candidate and
decided to constitute a Search
Committee," PSB said in a
notice after interviews.
Those
interviewed
included senior bureacurata
Awhash losh land Niraj Verma.
Mangalore Refinery and Pettochemicals (MRPL) directorficience Pounila | Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | Inspection |
Inspection | In

chemicals (MRPI) director-finance Pomila Jaspal and ONGC director for technology and field services On Prakash Singh were the other prominent names who were interviewed, as per the FESB notice. Both bureaucrats are from the 1994 batch of IAS officers belonging to the Assam-Meghalaya cadre. They are principal secretaries in the government of Assam, according to details available on the Department of Personnel and Training website.



Others interviewed by PESB were ONGC executive directors

were ONCC executive directors
Sandepe Gupta Pankaj Kumar
and Omkar Nath Gyani, ONCC
additional director general
Anand Gupta, and Container
Corporation of india directorfinance Manoj Kumar Dubey,
Security Printingand Mintiing Corp of India directorfinance Ajay Agarwal, who had
applied for the job, did not
appear for the interview.
This is the second time in
one-and-half decade that a
suitable candidate was not

one-and-half decade that a suitable candidate was not found from among those who had applied.

In August 2006, PFSB chose RS Sharma to head the company but the Prime Minister's Office (PMO) in Perbuary 2017 vetoed his appointment as it wanted the selection process to be widened by inviting candidates from private sector.

In June 2007, PFSB again selected Sharma and his candidates from private sector.

selected Sharma and his candi-dature was this time endorsed

by the Appointments Commit-tee of Cabinet.

PESB on Friday conducted interviews to select a replace-ment for Shashi Shanker who

interviews to select a replace-ment for Shash iShanker who retired after attaining super-annuating age of 60 years at March-end thisyear.
While a replacement is often selected before the incumbent retires, PSSB did not hold any interviews for almost seven months as its chairman wasm't appointed.
The government in April named Mallika Srinivasan, chairman and managing direc-tor Ortactors and Farm Equip-ment, as the new chairperson of PSSB. She is the first person from the private sector to be appointed as the head of PSSB. After Shankerreited, Subbash Kumar, director for finance and senior most director on ONCC board, was given the additional charge of chairman and man-aging director. Kumar, 59, will retire in December 2021.

BofA Securities picks up IndusInd Bank shares worth ₹364 cr

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 4

BOFASECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia. According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europes Aspurchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender. The shares were purchased at an average price of \$1,006, valuing the transaction at \$263.97 crore. As of March 2021, BofA Securities Europe \$A(001) held

As of March 2021, Both Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the

shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at \$678.10 pershare. IndusInd Bank settled at \$1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the pre-vious close.

GPL stake divestment: Andhra govt sets up empowered panel of secys

THE ANDHRA PRADESH gov-ernment on Friday constituted emment on Friday constituted a six-member empower decommittee of secretaries to determine the process of disni-vesting the states 10.40% stake in Gangavaran Port Limited (GPI) even as it approved the merger of GPL with Adani Ports and SEZ (APSEZ). In an order, chief secretary Aditya Nath Das said the state government accented the trans-

government accepted the trans-fer of 31.50% shares of Windi Lakeside Investment in GPL to APSEZ. He said the government

2d panel Of Secvys
also approved the definitive
agreement between APSZ and
DVS Rijkand and APSZ and
DVS Rijkand and
DVS Rijkand
DVS Rijkan

bank, shareholding data with the BSE showed. Earlier in January, BofA Secu-rities Europe SA bought 39,50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32,64 lakh shares of IndusInd Bank from

'RBI's ₹16,000-cr special liquidity facility to Sidbi to help MFIs mitigate Covid challenges'

MITHUN DASGUPTA Kolkata, June 4

THE MICROFINANCE INDUSTRY on Friday said the Reserve Bank of India's (RBI) decision to provide a special liquidity facility of ₹16,000 croreto the Small Industries Development Bank of India (Sidbi) for on-lending and refinancing purposes will provide support to microfi-nanceinstitutions(MFIs)tomit-

nanceinstitutions(MFs) domiticate challenges arising out of the pandemic.

Alck Misra, CEO of MFIR, the umbrella body of MFIs, expressed hope that small and medium MFIs will be "prominently" cowered under on-lending and refinancing facilities by Sidbi as the industry is facing disruptions in collections due to the second wave of Covid-19. Industry bodies were, however, "slightly disappointed" (is supported to the control of the control o

ever, "slightly disappointed" because the RBI did not announce any measure on

A.F. ENTERPRISES LIMITED

Cink: 188000L1989PLC01535

Regd. Office: DSM-334, DLF Towers, Shiraji Marz, New Moti Nagar, Delhi- 100015

rp. Office, Plot No. 8, Sector-5, Mathura Road, Ballabgarh, Farlabad, Haryana-12100

Email: info afenterprises/gemail.com; 11-6-37 005211999

Email: info.afenterprises@gmail.com | Tel: +91 7065219999
website: www.afeneterprisesItd.in
NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Industry bodies were, however, 'slightly disappointed' because

RBI did not announce any measure on including microfinance institutions under the Resolution Framework 2.0

including microfinance institu-

including microfinance institu-tions under the Resolution Framework 2.0
"Over the last few quarters, large MFIs have been maintain-ing relatively higher liquidity on the balance sheet as a precau-tionary measure in a Covid-impacted environment. The special liquidity facility of Sidbi will further provide additional support to MFIs in general, but particularto-small/MFIs toman-age their fixed obligations amidst disruption in collections amidst disruption in collections on account of lockdowns during

April and May 2021," CreditAccess Grameen MD & CEO Udaya Kumar Hebbar told FE.

cess Grameen MD & CFO Udaya Kumar Hebbartold FE.
P Satish, executive director, Sa-Dhan, said the RBI in April provided a special liquidity facility of \$15,000 crore to Sidbi. "Providing a further special liquidity facility of \$16,000 crore to Sidbi. "Providing a further special liquidity facility of \$16,000 crore is more in terms of enabling sidbito finance more imnovative types of activities," he said.
According to Satin Credit-care Networkchairman & manging director HP Singh, the central bank's measures, such as the increase in Hinti of loans from \$25 crore to \$50 crore to small businesses and individuals under Resolution Framework 2.0, special liquidity facility to Sidbi and a separate liquidity vindrov of \$15000 crore for contact intensity sectors, contact intensive sectors, among others, will act as instru-

The RBI, however, has still not included the MFIs under Resolution Framework 2.0. MFIN had called regard the RBI to provide a "restructuring window" for MFIs by including them under the Resolution Framework, which would help them mitigate the impact of Covid. According to the industry body, in current circumstances, it will be challenging for the small and medium MFIs to continue propyment to their length of the small and medium MFIs to continue propyment to their length of the small and medium MFIs to continue propyment to the industrial to the small proposed in th

amajor problem for MFIs to pro-vide further loans to their clients going forward. But it has not

RBI's ₹15k-cr liquidity: Crisil says only large firms may benefit

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, June 4

RATING AGENCY CRISIL on Fridays aid if reared risk aver-sion among banks may lead to only the large companies bene-fiting under the ₹15,000-crore on-tap liquidity window for contact-intensive sectors announced earlier in the day. The Reserve Bank of India's (RBl) aggregate debt-eligibility thresholds for small enter-prises to avail loan recasts takes the total number of enti-ties able to access the facility to RATING AGENCY CRISIL on

ties able to access the facility to two-thirds of the rated mid-size portfolio, it said.

Says only large existing borrowers in contact-intensive sectors may benefit from this on-tap liquidity window as banks may have greater comfort with them

Farlier in the day, RBI relaxed the eligibility criteria for the restructuring window offered under the Resolution Framework 2.0 to ₹50 crore. Earlier, only half of the rated companies were eligible for the package when the loan eligibility threshold was set at ₹25 crore. It also launched the ₹15,000-crore liquidity facility. The on-tap fliquidity window for contact-intensive sectors such as hospitality, travel and tourism, and aviation ancillary services, which have borne the brunt of the second wave of the pandemic, is threby 43s, it stald. "There is a possibility that only large existing borrowers in contact-intensive sectors actually benefit from this on-tap fliquidity window as banks may have greater comfort with them," the agency said.

Maha CM launches ₹4.6Lcr annual priority sector credit plan which is the highest ever in

MAHARASHTRA CHIEF MIN-MAHARASHI RACHIEFMIN-ISTER Uddhav Thackeray launched the state annual priority sector credit plan worth ₹4,60,881 crore and an overall annual credit plan of ₹18,10,779 crore at the quarterly State Level Bankers Committee (SBLC) meeting of

Committee (SBLC) meeting or Maharashtra

The state government has set the annual credit lending target by banks of ₹1.19 lakh crore for the agriculture sector in the current financial year. Of this, ₹60,860 crore is set for the sector laws during the sector of the secto set for the crop loans during the kharif and rabi seasons.

Banks in the state have disbursed crop loans worth ₹47,972 crores during FY21,

which is the highest ever in the last five years, according to the statement issued here. The government advised banks in the state to continue more finance under crop loan disbursement during ongo-ing kharif 2021 season and achieve the season targets by the end of June 2021. The CM advised member banks to improve credit dis-

The CM advised member banks to improve credit disbursal under agriculture sector and also support all government-sponsored schemes, including SHGs.

The forum was also guided by Ajit Pawar, deputy chief minister; Dadaji Bhuse,

chier minister; Dadaji Bnuse, agriculture minister; Balasa-heb Patil, cooperation minis-ter and Dr Vishwajeet Kadam, minister of state for agricul-ture and cooperation.

while not increasing the cost

people per day to 20, especially since many had returned to

NANDA KASABE

New Delhi

Sula's market share rises 10% despite pandemic on home consumption boost

THE PANDEMIC HAS been THE PANDEMIC HAS been tough for most discretionary consumer businesses, but Sula Vineyards has managed to increase its market share during the period to 70% from 60% ayearago.

Rajeev Samant, founder CEO, Sula Vineyards, pointed out that while it has been a hourible aversigner the same

horrible experience, the pan-demic has also been an oppor-tunity to do things differently.

theirvillages," he added.
"Tourism is going to continue to be depressed, business travel is going to take at least 2 years to get back to normal and institutional sales are not corning back soon. But there has been a massive shift to home consumption," Samant sald.
Sula now has a market share of 70% of retail wine sales, he said, adding it has always focused on the consumer. Sula has eliminated all marketing spends and focused "We worked on hospitality while not increasing the cost base and improving experi-ence for the customer. And I was also there for the entire 2020 vintage harvest, some-thing that I have not done in a long time," the said. "Sula has come out of the pandemic much stronger. Now, we have a slightly pared down company in terms of manpower and operations. We cut down the contract labour from 60-70 people per dayto 20, especially

marketing spends and focused only on digital, he added.

inanci<mark>alem.ep</mark> .in

the requirements set out in the Rules, fainfer the shares to the IEPF Authority by the due date. Members may not the tito the reclaimed side dividend and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits account on such shares, if any, can be claimed lack by them from the IEPF Authority and the following the procedure prescribed in the Rules. In case the members have any quaries on the subject marker and the Rules, they may contact the Company's Register and State Transferr Register and the Company's Register and State Transferr Register to the Company's Register and State Transferr Register Register and State Transferr Register Register and State Transferr Register Regi

251.44 808.28

राजद्रोह कानून रद्द करने की मांग की एडीटर्स गिल्ड ने

नई दिल्ली, 4 जन (भाषा)।

'एडीटर्स गिरुड ऑफ इंडिया' (इंजीआइ) ने विष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के डिलाफ राजदीह के मुकदो पर उच्चतम न्यायालय के फैसला का मुकदार को स्वागत किया और 'कटोर' और 'दुराने' राजदीह कानुनों को रह करने की मांग की।

पुरान राजद्राह कानुना का रह करन का मांग का। उच्चतम न्यायालय ने एक युद्धुब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदों के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए दुआ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रह करते हुए गुरुवार को अपने फैसले में कहा था कि शीर्ष अदालत की 1962 की ट्यवस्था के तहत राजद्रोह के मामलों में पत्रकारों को सुरक्षा का

राजप्रीह का नामणा च चवनाय का श्रूप्त का अधिकार है। गिल्ड ने एक बयान में कहा, 'ईजीआइ स्वतंत्र मीडिया और हमारे लोकतंत्र पर राजद्रोह के कानुनों के कठोर असर पर उच्चतम न्यायालय की चिंताओं पर संतोष जताता है।' इसमें कहा गया है, 'गिल्ड

विनोव युआ इन कठोर और पुराने कानूनों को गमाले में शीर्ष रह करने की मांग करती है जिनका किसी भी आधुनिक उदार जीकतंत्र में कोई स्थान नहीं है।' फैसले को सराहा निक्षा के कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दुआ के खिलाफ

आपराधिक शिकायत को न केवल रह किया बल्कि जाउराजिक रिकार्यकार का ने क्यारी रहा गया जारक राजद्रोह के मामलों से पत्रकारों की सुरक्षा करने की महत्ता पर भी जोर दिया। गिल्ड ने कहा कि केदार नाथ सिंह प्रकरण में

1962 में सुनाए गए फैसले का संदर्भ और राजद्रोह 1962 में सुनीए गए फर्सल का सदम आर रोजहार के आरोपों से एककारों की मुख्य होने की करूत स्वागत योग्य हैं लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों ने जिस तरीके से कानून लागू किए, उसके चलते मुकदमा चलाए जाने से पहले जेल में बंद कर दिया जाता है और उच्चतम न्यायालय को इसमें भी हस्तक्षेप करने की आयश्यकता है।

खदान में जल स्तर बढने से बचाव अभियान प्रभावित

शिलंग, ४ जून (भाषा)।

मंघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक खदान में पांच लोग अब भी फंसे हुए हैं। भारी बारिश के कारण जल स्तर एक मीटर और बढ़ जाने से बचाव अभियान में दिक्कतें हो रही हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में बताया।

शुक्रवार को इस बार म बताथा। राष्ट्रीय आपदा मोचन वल (एनडीआरएफ) ने गुरुवार को कहा था कि 152 मीटर गहरे गड्ढे में जलस्तर 46 मीटर तक पहुँच गया है। जिला उपायुक्त ई खारमलकी ने बताया कि खदान के शाफ्ट के भीतर जलस्तर उजाडुंग्ल, र खारतराज्य ने माता वाल यह व्यान पर शालर जे नातर उजाराज्य महर्त्व की तुलना में एक मीटर बढ़ गया है। एनडीआएएफ, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआएफ) और दमकल सेवा के 100 बचावकमी बढ़ां बचाव अभियान में तैनात हैं और कम से कम 10 मीटर पानी घटने का इंतजार कर रहें हैं।

इतजार कर रह है। ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के जिला मुख्यालय खिलेरीअट से करीब 20 किलोमीटर दूर उमरलेंग की खदान में रविवार को डायनामाइट किलोमीटर दूर उमरलेंग की खदान में रविवार को डायनामाइट बिस्फोट के बाद पानी भर गया था। पिछले 24 घंटे में इलाके में लगातार बारिश के कारण 152 मीट्र गहरे गड्डे में जल् स्तर बढ़ता गया। खारमलकी ने बताया कि फिलहाल एक पंप से पानी निकालने का काम

हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड

DIMETER HIGHES (MICHES) हो 64 I I CIHES (MICHES) (MICHS) (MICHES) (MICHES

शाखा के स्थान परिवर्तन की सूचना

नाम : श्री संदीप दीक्षित (शाखा प्रबंधक)	सम्पर्क सम्पर्क 9999884474	ई-मेल sandeep.d@sgrlimited.in
म आपके निरंतर व्यवसाय और हम में उ है। सेवा हेतु पूरी पक्षण के साथ कार्य कर		ते हैं तथा भविष्य में आपकी वित्तीय जरूरते सेवा गड़ ऋण लिमिटेड

Fincare

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhal
Ahmedahad - 380006, Guisrat www.fincarehank.com LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay thei outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed fron Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of ns/articles as per below schedule.
me of the borrower Auction Auction Venue unt no Name of the born

20660000294280	ANKUSH DUA	BP NO.49, GROUND	10-06-2021	
20660000301109		FLOOR, NEELAM BATA ROAD, NEAR		
20660000492987	GHAN SHYAM	GRANDDELITE HOTEL, NIT,		
20660000298512	MUKESH	FARIDABAD - AC NAGAR - 121001		
20660000301309	JATIN VERMA	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 &	10-06-2021	
0660000276684 KAPIL KUMAR		12, SECTOR-15, PART-II, NEAR	na one practice.	
20660000306070	NARAIN DASS	HOTEL GALAXY, GURUGRAM -		
20660000267221	RAJ SINGH	122003		
20660000499204	SUNIL KUMAR	1		
20660000476258	VINAYKUMAR	1		
20660000253578	VINOD KUMAR	1		
20660000259447	YOGESH YADAV	1		
20660000311560	DEEPAK BHATI	GROUND FLOOR, SHOP NO.10.	10-06-2021	
20660000454940	PARDEEP	SEC-10-A, KHANDASA ROAD,		
20660000307578	POOJA DEVI	GURUGRAM - 122001		
20660000496720	RAVI SHANKER			
20660000293831	RAVI SINGH SISODIYA	1		
20660000296746	SAVITRI	1		

चार टन अफीम डोडा चूरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार

जयपुर, ४ जून (भाषा)।

राजस्थान पुलिस की सीआइडी (क्राइम ब्रांच) की टीम ने शुक्रवार को राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में चार टन से वित्ताइगढ़ जिल में चार टेन से अधिक अफीम डोडा चूरा बरामद किया। यह चूरा एक ट्रक में गेहूं की फर्जी बिल्टी (रसीद) की आड़ में जोधपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीआइडी क्राइम ब्रांच की मादक

तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आतारका महानिद्यक पुरास (अपराध) रवि प्रकाश ने बताया, "सीआइडी क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई टोल नाका मंगलवाड़ पर की। डोडा चूरा गेहूं के कट्टों के नीचे छिपाकर चित्तौड़गढ़ से

जोधपुर ले जाया जा रहा था। टीम द्वारा ट्रक की जांच की गई तो गेहूं के कहीं के नीचे 215 कहीं में छिपा कर ले जाया जा अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ।'

चेक का 'क्लोन' बनाकर 3.60 करोड़ रुपए की धोखाधडी

रायपुर, ४ जून (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के रायपर जिले की छत्तासगढ़ के रायपुर जिल की पुलिस ने चेक का 'क्लोन' (प्रतिरूप) बनाकर 3.60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में बैंक के शाखा प्रबंधक समेत दो

में बैंक के शासा प्रवंधक समेत दो लोगों को गिएसता कर लिया है। रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बैंक चेक का क्लोन बताया ठ.60 करोड़ रुपए को भोसाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने केनता बैंक के शासा प्रवंधक रायपुर निवासी आलोक कुमार वर्षा (30) जोर आरोपी सुहास काले (32) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले के मास्टर माइंड शमीम और रमेश ठाकरे व एजांज फरार हैं। उन्होंने वताया कि केनरा बैंक के सहायक महाप्रबंधक भानु मूर्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शहर के

ADITYA BIRLA

www.readwhere.com

टाटीबंध स्थित केनरा बैंक में सुहास हरिश्चंद काले ने संचालक मेंससं विष्णु लक्ष्मी डेवलपर्सं व बिल्डर्स के नाम से इस वर्ष आठ मार्च को चालू खाता खुलवाया था। उनके मुताबिक, खाता खोलने के बाद खाता खुलावाया था। उनके मुताबिक, खाता खोलने के कवर मुताबिक, खाता खोलने के कवर काले ने 24 मार्च से एक मई के मध्य बिहार रटेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड पटना और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के खाता से 3,60,41,000 रुपए निकाल लिए।

अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान

में राजकीय शोक की घोषणा नई दिल्ली, ४ जून (भाषा)।

सरकार ने मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का गुरुवार को निधन हो गया था।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

क्रमानी (नियामन) नियम, कर... 30 के अनुसारण में] के न्द्रीय सरकार, हो त्रीय निर्देशक, उत्तरी होत, मूर्व दिल्ली के समझ करनी अधिनेयम 2013 की पाता 3 की उपज्ञात होर कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 20 (ई) के मानते में और

के समाने में अंति स्थान के निर्माण कर में स्थान में के अपने के स्थान में स्

कायात्या पते पर भी में जो 809, 8वीं मेजिल, अरुणाचल गवन 19, बाराखंभा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली —110001 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से सोलोमन कॅपिटल प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता /-हस्ता /-विकास गर्ग (निवेशक) स्थान : नई दिल्ली खीआई एन: 00009963

VACANCIES AT URC 27 ED, AF 27 ED, AF invites application for the under ment of the u oned post in Unit Run Canteer Other eligibility i) Nationality:- Indian ii) Language:- Hindi iii) Work experience:- Opt iv) Good communication s v) Physical/ Medical fitnes Should be able to lift and c 55 kg weight at one go. vi) Age limit - 18-32 Year.) Signed application (Hindi & English) th following documents:(i) Resume
(ii) Certificatel/Mark sheet of 08th pass (iii) Character certificate issued by MLF/Sarpanch/Sacetted officers
Selection procedure
(i) All candidates will undergo skill tes for aleaning and loading /unloading
(i) Physical Fitness lest) Nationality: Indian ii) Technical Experience a) Computer Knowledge b) Typing Speed 25-30 WPM ii) Language: Hindi & Englisi y) Work experience: Option y) Work experience: Option y) Option Communication skill. y) Option Speed Service Knowledge yiii) General Service Knowledge yiii) Age limit - 18-32 Year. (ii) Physical Fitness test

FOR BILLING CLERK

(a) Signed application (Hindi & English)
with following documents:
(i) Certificate/Mark sheet of 10th pass
(iii) Character certificate issued by MLA
(Sarpanch /Gazetted officers Salection procedure
(i) Written test- Computer kn
10th Base
(ii) Computer Typing
(iii) Introduce viii) Age limit - 18-32 Year.

Nationality - 1 Indian in 1 Technical Experience (a) Computer Knowledge (b) Accounting Software (c) Management (S) English (b) Accounting Software (c) Management (S) English (b) Work experience : 5 Years (b) Work ex FOR ACCOUNTANT (Hindi & English)) Signed application (Hind & English) th following documents:
() Resume
(ii) Certificate/Mark sheet of 10th pass and Graduation (B. COM)
(iii) Character certificate Issued by MLA
(iv) Experience certificate, if any, Selection procedure
(i) Written test: Basic Computer Knowledge, Accountancy Test
(iii) Computer Typing
(iii) Interview Kindly mention the following on the Envelop: "Application for the Post of— 2. Application to be submitted by Post/ by hand at: unif Run Cartee of Prahladpur New Delhi-110010 By 1100 hr on 100 Jun 3221.

गोथी इंडिया विभिन्देङ पंत्रीकृत कार्यात्म 32,2 क्ष्मिल्य (स्थाप अक्षात्म अध्यक्ष अध्यक्ष स्थाप अक्षात्म अध्यक्ष स्थाप स्थाप अध्यक्ष स्थाप स्थाप अध्यक्ष स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप रु. ताखो मे 31,03.2021 항) समाप्त तिमाही ऑडिटेड 207.59 821.32 0.80 31.03.2020 को समाप्त हुई संगत तिमाती लनों से कुत आप चि के लिए मुद्ध लाभ / (हाचि) (कर से पहले, असाधारण और/पा असाधारण से पूर्व। एवं अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/पा असाधारण मदों के 0.80 125.88 -151.34 145.76 125.88 143.96 169.34 ा जन रिचर्च को डोड़कर) जैसा कि पित्रले वर्ष के लेखापरीवित हाला पत्रा है

-0.04 5.01 5.73 टि-.
ज्युंकि सोर्ग (सूर्योबद्धा दायिका एवं प्रकटन अधेकार) विनिध्म 2015 के विनिध्म 33 के तहत रहींक एक्सपैक के साथ दर्ज विश्वत तिमारी के वितरीय
परिणानों जा सदाय है। तिमारी तिमार परिणानों का विकरण नहींक एक्सपैक की विवादाद www.beindula.com जोर कमानी की वेतसाद
परिणानों का सदाय है। तिमारी तिमार परिणानों की उत्तर उपस्था है।
ज्यानेक आहिंदर तिमारी परिणानों और वेड परिणानों की सामीर्क की गई है और 0.50,022 को आहिंदर तिमारी परिणानों और वेड परिणानों की सामीर्क की गई है और 0.50,022 को आहिंदर तिमारी परिणानों और वेड परिणानों की सामीर्क की गई है और 0.50,022 की आविष्ण परिणानों की स्थान की अपने तिमारी की सामेर की स्थान की सामार्थिक की अपने परिणानों की सामीर्थ की सामार्थिक स्थान की सामार्थिक सामार्थिक स्थान की सामार्थ की स्थान सामार्थिक स्थान की सामार्थ की स्थान सामार्थिक स्थान स्थान सामार्थिक स्थान सामार्थिक स्थान सामार्थिक स्थान सामार्थ की सामार्थिक स्थान सामार्थिक सामार्थिक स्थान सामार्थ सामार्य सामार्थ सामार्थ सामार्थ सामार्थ सामार्थ सा

icra

आईसीआरए लिमिटेड

कॉर्नेरेट पहचान संस्था (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749 पंजीकृत कर्यालक: बी-710, स्टेट्समेंग हाउस, 149, बारायन्वा गेड, गई दिल्ली-11 टेलीफोन मं.: +91.11.23357940-45; वेबसाइट: www.izra.in ई-मेल आईडी: invest

ा अपना में तेन प्रधान करने को संबंधित कारणार किन्ते के साम प्रधान के स्वापन के का पार करने के संबंधित कारणार किन्ते के साम प्रधान के स्वापन किन्ते के साम प्रधान किन्ते किन्ते के स्वापन किन्ते के साम प्रधान किन्ते क

सेवार को अविदेश प्रात्मिक्ता को अंतर्गत कर देशे।
स्वरूपन हम अभिने में मिलियों के प्राप्त के अध्यापन कर देशे।
स्वरूपन मिलयों मिलयों के मिलयों मिलयों के मिलयों मिल

तिथि: 4 जून, 2021

कृते आईसीआरए लिमिटे

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड पंजी. कार्यालयः ७१/१), शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 कॉर्पोरंट पहचान संख्याः 1.74899D.1993Pl.C056652 इंमेल : investors@valiantcom. येवः www.valiantcom.com, टेलीः 011-25928415

31.03.2021 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षित समेवि	त वित्तीय	परिणाम	
	(ईपीएस	छोड़कर रु.	. लाखों में
विदरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
विवरण	31.3.2021		31.32020
	(अनकाक्षत)	(अनंकेक्षित)	(अकाक्षत
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	491.32	427.87	2167.63
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मर्दों से पूर्व)	12.14	2.68	210.3
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	12.14	2.68	210.3
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदीं के बाद)	(0.03)	9.30	160.3
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर के बाद)	60.07	3.44	240.7
इक्विटी शेयर पूंजी	722.35	722.35	722.3
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व एवं बाद) मूल एवं तरल (रु. में)	-	0.14	2.2
टिप्पणी: स्टॅंडएलॉन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सारांश			
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	453.92	392.28	1787.1
कर से पूर्व लाभ/(डानि)	51.6	9.00	93.0
कर से बाद लाभ/ (हानि)	(3.96)	14.59	71.2
कुल व्यापक आय (कर से बाद)	3.16	1.56	89.10

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉ एक्सचेंज के पास दाखिल की गई अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के सम्पर्ण विवरण प्रारूप का सार है । अंकेक्षित तिमाई वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाई www.valiantcom.com) पर भी उपलब्ध है।

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड के लि इन्दर मोहन सूट

प्रबंध निदेशक निदेशक पहचान संख्याः ०००० १७ ५६

	PROTECTING	NVESTING FINANCE ADV	IJMU		आदित्य बिरला हाउसिंग	ा फाइनेंस	िलिमिटे
	•	लय : इंडियन रेयॉन गाखा कार्यालय : डी			त–362266		
वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का 54) की धारा 1३((अधिनियम) के तहत मांग सूचना							
							जून, 2
क.सं.	कर्जदार्(रॉ) के नाम तथा पता (क)	सम्पत्ति का विवरण (ख)	ऋण राशि (रु.) (ग)	ऋण खाता सं. (घ)	बकाया राशि (रु.) (ड)	सूचना की तिथि (च)	एनपीए रि (छ)
19.	 जनस्यन सिंह, मकान ने 16, सेक्टर-15-U, फरीवजबर, हरियाण, परकार्ट मार, फरीवजार, प्रश्न और फरीवजार, हरियाण-121007 मार बीर अस्ति ने अपने तर देविक अस्ति स्थार-15, प्राम मिर्तावपुर, फरीवजार, प्रामी, सी.ठ., फरीवजार, हरियाण, प्रस्त-121004 - सेमार्च मीक्ट इस्त्रेण, सर्चर से प्रत, नेक्टर-5, फरीवजार, हरियाण, फरीवजार, सेक्टर 7 एव. औ., फरीवजार, हरियाण-121005 3. संबीधा अस्त्रासनी सिंह, स्थारन ने 16, सेक्टर-15-U, फरीवजार, विकास, प्रस्ते क्षार, प्रस्ते कर, प्रस्ते क्षार, क्षार-15-U, फरीवजार, 	सम्पत्ति आर-104, प्रथम तल, टॉबर-आर, रिजॉर्ट, सेक्टर-75, ग्राम मिर्तजपुर, फरीदाबाद, पाली, बी.05, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत-121004 का सम्पूर्ण भाग	र. 4929000/-	LNDELHL - 12170041111 वजा LNDELHL - 12170031308	रु. 4,988,377.00/- (रुपये उनचार लाख अट्टामी ज़जार तीन सी सतहत्तर मात्र) 3 मई, 2021 तक वकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा व्याज के माध्यम से	27-मई-21	30-अप्रै
0.	1. असी कुमबर, म.च. 138, एव लाई, मुस्त करते, गरून करते, मुस्त मार्ग, राज्य के तारी कर्मी हान्यतं मार्ग, राज्य के तारी कर्मिक्त हिन्ती हिन्त	सम्पत्ति अपर प्राजण्डपलीर, छन्न के अधिकार रहित, प्लीट सं यूजी-3, प्लीट सं, बी-1/147, ब्लॉक यी-1, ग्राग सरामपुर (भीपुरा), परमाना लोती, डीएलएफ हिल्लाए एक्सटेशन-2, गाँवियाबाद, गाँगियाबाद, एकओ. गाँगियाबाद, जत्तर प्रदेश, भारत-201001 का सम्पूर्ण भाग	₹. 1360000/-	LNDEL0HL- 08180010646 বথা LNDELOHL- 08180010644	क. 1,124,517.00/- (रुपये ग्यारह लाख गीबीस हजार पांच तो सतह मात्र) 5 मई. 2021 तक काकाम मुक्तरन, एरिया (शिलस्य प्रभार सहित) तथा व्याज के माध्यम से	27-मई-21	30-ਕਾਫ਼ੀ
1.	1. अमार्यांक साह, पकान ने 30 q. 09, वेरिकाल हो नगर, माथ पूरी पंतान-परितार शिरकों, शिरकों ने 10064 साब की - पार्टि में 139, विने सिती, केंग्रट से 249, फार्टि में 253, प्रावत ने - 9271 (44), हटलात से 155, पर्टि में 138, देवी तिर्दे, पर्वाप्त वास्तुम, हर्तांक बार, शिर्मा 102, पर्ताप्त स्थार स्था अंत्र (प्राप्ता), रूपमार, पर्ताप्त, पर्ताप्त - 140301 2. मार्टीक स्था, पर्वाप्त, पर्ताप्त - 140301 2. मार्टीक स्था, पर्वाप्त, पर्ताप्त - 140301 2. मार्टीक स्था, पर्वाप्त, पर्ताप्त - 140301 2. मार्टीक स्था, पर्वाप्त - 140301	सम्मित्त प्लॉट नं. 138, ईडेन सिटी, खेबट सं. 249, खतीनी नं. 253, खसरा नं. 972/1 (44), खत्वस्त सं. 183, प्लॉट नं. 138, ईडेन सिटी, वाकवा खानपुर, तहसील खरार, जिला एस.ए.एस. नगर, खरार एस. औ. (रूपनार), रूपनगर, पंजाब, धारत-140301 का सम्मूर्ण भाग	र. 1938618/-	LNZKP0HL- 11180014312	रु. 9,48,027.00/- (रुपये नी लाख अड़तालीत हजार सत्ताहंस मात्र) 3 महं, 2021 तक बकावा मुख्यन, एरिया (वितस्य प्रभार सहित) तथा व्यात्र के माध्यम से	27-मई-21	30-ਕਾਰੈ

िलले, हिल्ली-10004

कि कि व्हिल्ली-10004

कि कि वहिल्ली-10004

कि वहिल्ली-1004

कि

प्राधिकत अधिकारी द्वारा इस्ताक्षरित, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड स्थान- दिल्ली /ग ग शे